



Ref. No.: SIL/CHD/2025-26/28052025
Date: May 28, 2025

To,

The Manager
Listing Department
BSE Limited (BSE)
Corporate Relation Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers, 25th Floor
Dalal Street, Mumbai – 400001

The Manager
Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd (NSE)
Exchange Plaza, C-1 Block G, Bandra Kurla
Complex, Bandra, Mumbai – 400051

BSE Scrip Code: 526951

Trading Symbol : STYLAMIND

Subject: Newspaper Advertisement –Financial Results

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47(3) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please note that the Extract of Audited Financial Results of the Company for the Forth Quarter (Q4) and Year ended March 31, 2025 were published in Business Standard (English & Hindi).

Further, the above information is also available on the Company's website at www.stylam.com under the head of investors.

You are requested to kindly take the aforesaid information on record.

Thanking you,
Yours sincerely,

For **Stylam Industries Limited**

Dhiraj Kheriwal
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

Stylam Industries Limited

Regd. Office: SCO 14, Sector 7C, Madhya Marg, Chandigarh (INDIA)-160019, **T: +91-172-5021555/5021666, F: +91-172-5021495**
Works I: Plot No. 192-193, Industrial Area Phase-1, Panchkula (Haryana) INDIA - 134109, **T: +91-172-2563907/2565387**
Works II: Village Manak Tabra towards Raipur Rani, Mattewala Chowk, Distt. Panchkula (Haryana)
W: www.stylam.com, **CIN:** L20211CHI 991PLC01 1732 (Govt. of India recognised Star Export House)

Aadhar Housing Finance Ltd.

Corporate Office: Unit No.802, Natraj Rustomjee, Western Express Highway and M.V.Road, Andheri (East), Mumbai-400069
Ludhiana-Chandigarh Road Branch: 2nd Floor, Fortune Tower, SCO No. 34C, Phase -3, Urban Estate, Dhandari Kalan, Ludhiana - 141001 (Punjab)
Authorised Officer : Vikas Nain, Contact : 9802000309

PROPERTY FOR SALE UNDER PROVISIONS OF SARFAESI ACT, 2002 THROUGH PRIVATE TREATY

Whereas the Authorised Officer, Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) has taken the Possession u/s 13(4) of the Securitisation & Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (The SARFAESI Act, 2002) of the property ("the Secured Asset") given below The Authorised Officer has received offer of Sale from some interested party against the above mentioned Secured Asset under the SARFAESI Act for recovery of the Secured Debt. Now, the Authorised Officer is hereby giving the Notice to Sale of the above said property through Private Treaty in terms of rule 8 and 9 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002. The Details of the Account are as follows:

S. No.	Loan Code No. /Branch	Name of the Borrower/ Co-Borrowers	Demand Notice Date & Amount	Reserve Price (RP)	Total Outstanding Amount as on 12-02-2025	Description of the Secured Asset
1	(Loan Code No. 38710000314/ Ludhiana-Chandigarh Road Branch)	Minhajul Sarakar (Borrower), Md Manzarul Haque (Co-borrower)	09-11-2024 & ₹ 7,02,917/-	Rs. 5,00,000/-	Rs. 7,34,476/-	All that part & parcel of property bearing, Ground Floor H. No. is K. No. 16//4/1/2-4/2/-5/1-5/2-6-7 Etc Meharban Colony Wakia Meharban Ludhiana Punjab - 141007 Boundaries: East- Street L 34 Ft 6 In, West- Ameru House 34 Ft 6 In, North- Street 16 Ft 1 In, South- Vacant Plot 16 Ft 1 In

The Authorised officer will hold auction for sale of the Secured Asset on 'As is where is Basis', 'As is what is basis' and 'Whatever is there is basis'. AHFL is not responsible for any liabilities whatsoever pending upon the said property. The Authorised Officer reserves the right to accept or reject the offer without assigning any reason whatsoever and sale will be subject to confirmation by Secured Creditor. On the acceptance of offer of proposed buyer, he/she is required to deposit 25% of accepted price inclusive adjustment of Earnest Money Balance immediately and the balance amount shall be paid by the purchaser within 15 (fifteen) days from date of acceptance of Offer by the Secured Creditor. The proposed buyer is to note that in case of failure of payment of balance amount by him/her within the time specified, the amount already deposited shall stand forfeited and property will be resold accordingly.

This is **15 DAYS SALE NOTICE UNDER SARFAESI ACT, 2002** is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Co-Borrower (s) and Guarantor (s) that the above described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the **Physical Possession** of which has been taken by the Authorised Officer of Aadhar Housing Finance Limited (AHFL) Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" and to the amount due to Aadhar Housing Finance Ltd., in full before the date of sale, auction is liable to be stopped.

If the Borrower(s), co-borrower(s) has any buyer who is ready to purchase the mortgage property/secured asset at price above the given reserve price of then Borrower(s), Co-borrower(s) must intimate to AHFL on or before 11-06-2025 AHFL shall give preference to him. If Borrower(s), Co-borrower(s) fails to intimate on or before 11-06-2025 the AHFL will proceed sale of property at above given reserve price.

The Date of Auction is fixed for 11-06-2025.

Place : Punjab
Date : 27-05-2025

(Authorised Officer)
For Aadhar Housing Finance Limited

CELEBRATING 34 YEARS

STYLAM INDUSTRIES LIMITED

CIN: L20211CH1991PLC011732
REGD. OFFICE: SCO 14 SECTOR 7 C MADHYA MARG CHANDIGARH -160019
Email: cs@stylam.com, web: https://www.stylam.com

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025.

(Rs in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended			Year Ended	
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1.	Total Income from Operations	26,644.52	25,630.10	24,121.30	1,03,258.91	91,980.92
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,772.45	4,246.72	4,220.59	16,489.77	16,546.62
3.	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,772.45	4,246.72	4,106.45	16,489.77	16,432.48
4.	Net Profit/ (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,958.21	2,981.80	3,757.37	12,187.29	12,844.02
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,967.93	2,974.31	3,755.69	12,110.34	12,842.13
6.	Equity Share Capital	847.40	847.40	847.40	847.40	847.40
7.	Earnings Per Share:					
	1. Basic	17.51	17.55	22.17	71.46	75.77
	2. Diluted	17.51	17.55	22.16	71.46	75.77

Notes: 1. The above results of Stylam Industries limited and its subsidiaries were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on May 26, 2025 respectively.
2. The above is an extract of the detailed format of the audited Financial Results for the Quarter and Year ended on 31st March, 2025 filed with the stock exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited Quarterly and Year ended 31st March, 2025 standalone and Consolidated Financial Results are available on the website of the Stock Exchanges (www.bseindia.com) and on the company's website (www.stylam.com)
3. Information of Audited Standalone Financial Results of the company is as under:-

(Rs in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1.	Total Income from operations	26,643.42	25,628.36	24,119.63	1,03,252.93	91,974.81
2.	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, after exceptional and/or Extraordinary items)	3,771.46	4,244.97	4,105.20	16,483.99	16,426.81
3.	Net Profit/ (Loss) for the period (after Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	2,906.94	3,033.31	3,754.77	12,106.07	12,837.94

For and on Behalf of Board of Directors
STYLAM INDUSTRIES LIMITED
Sd/- Jagdish Rai Gupta
Managing Director
DIN:00115113

Place: Chandigarh
Date: 26.05.2025

CROWN LIFTERS LIMITED

CIN: L74210MH2002PLC138439
Registered Office: 104, Raheja Plaza Premises Co-Op Soc. Ltd., Shah Industrial Estate, Veera Desai Rd, Andheri (W) Mumbai - 400053.
Tel No: +91 +91 22 4006 2829; E-mail: cs@crownlifters.com; Website: www.crownlifters.com

Statement of Financial Results for the Quarter and Year ended on March 31st, 2025

(Rs. in Lacs)

Sr. No.	Particulars	Quarter Ended			Year Ended	
		31-03-2025 (Audited)	31-12-2024 (Un-Audited)	31-03-2024 (Audited)	31-03-2025 (Audited)	31-03-2024 (Audited)
1	Revenue from Operations	1,113.99	870.40	1,054.04	3,503.45	2,810.07
2	Other Income	59.05	60.82	22.45	192.62	76.71
3	Total Income (1+2)	1,173.04	931.22	1,076.49	3,696.07	2,886.78
4	Expenses					
(a)	Cost of Material consumed	297.78	200.41	273.96	941.83	947.61
(b)	Purchase of stock in trade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(c)	Changes in Inventories of Finished Goods, Work-In-Progress and Stock-In-Trade	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(d)	Employee Benefits Expenses	95.60	110.36	79.80	376.51	253.87
(e)	Finance Costs	111.32	84.41	64.03	333.41	162.92
(f)	Depreciation and Amortisation Expenses	168.77	162.66	226.42	589.83	688.64
(g)	Other Expenses	60.22	20.44	56.99	134.55	95.75
	Total Expenses (4)	733.69	578.28	701.20	2,385.13	2,148.75
5	Profit/(Loss) from Operations Before Exceptional Items & Tax (3 - 4)	439.35	352.94	375.29	1,310.94	738.03
6	Exceptional Items	8.11	0.00	0.00	1,236.60	0.04
7	Profit / (Loss) from Ordinary Activities Before Tax (5 - 6)	447.46	352.94	375.29	2,547.54	738.07
8	Tax Expenses					
(a)	Current Tax	18.11	49.11	160.00	127.00	160.00
(b)	Deferred Tax	103.90	39.72	27.25	522.53	27.25
(c)	Adjustment of tax relating to earlier period	0.00	0.00	0.00	-	-
	Total Expenses (8)	122.01	88.83	187.25	649.53	187.25
9	Net Profit/(Loss) for the period (7 - 8)	325.45	264.11	188.04	1,898.01	550.82
10	Other Comprehensive Income					
11	Total Comprehensive Income for the period (9+10)	325.45	264.11	188.04	1,898.01	550.82
12	Paid-Up Equity Share Capital shares of Rs 10/- Each	1,122.33	1,122.33	1,122.33	1,122.33	1,122.33
13	Other Equity excluding revaluation reserve	5,060.09	4,057.53	2,484.96	5,060.09	2,484.96
14	Earnings Per Equity Share (Not Annualised)					
(a)	Basic	2.90	2.35	1.80	16.91	5.28
(b)	Diluted	2.90	2.35	1.80	16.91	5.28

NOTES:
The company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs with effect from 1st April, 2017 with a transition date of 1st April, 2016 and accordingly these financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereat.

On behalf of the Board of Directors
CROWN LIFTERS LIMITED
Mr. Karim K Jaria - Chairman & Managing Director
DIN: 00200320
<https://crownlifters.com/investor-center/#financial-result>

Place : Mumbai
Date : 26-05-2025

ADITYA BIRLA CAPITAL

PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING
Aditya Birla Housing Finance Limited

Registered Office: Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat 362266
Branch Office: Aditya Birla Housing Finance Ltd. SCO-130-132, 1st Floor, Apra Tower, Feroze Gandhi Market, Ludhiana - Punjab-141001
Branch Office: Aditya Birla Housing Finance Limited, Unit No. 40, 1st Floor, Ccc Chandigarh City Centre, Vip Road, Block B, Zirakpur, Punjab-140 603
1. ABHFL: Authorized Officer Mr. Vikas Arora # 9878177000
2. Auction Service Provider (ASP): - M/S e-Procurement Technologies Pvt. Ltd. (AuctionTiger) Mr. Ram Sharma - Contact No. 8000023297 & 9265562819

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

Whereas the Authorized Officer of Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor had taken possession of the following Secured assets under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 SARFAESI) for recovery of the secured debts of the secured creditor, for the dues as mentioned herein below with further charges and cost thereon from the following Borrowers and Co. Borrowers. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrowers and Co. Borrowers that e-auction of the following property for realization of the debts due to the Aditya Birla Housing Finance Limited will be held on "As is where is and "As is What is" Basis.

Sr. No.	Name of the Borrower/ & Co-Borrowers	Description of Properties/ Secured Assets	Amount as per Demand Notice	Reserve Price	EMD	Last EMD Date	Date of E-Auction
1.	RAMESH SINGH & SAVITA BISHT	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF FLAT NO. 401 B, FIRST FLOOR, ADMEASURING AREA 139.33 SQ. YARDS I.E. 22' X 57' = 1254 SQ. FT. PROPERTY BEING KHEWAT/KHATAUNI NO. 71/71, 350/352, KHARANO.9/2/22/1(0-8), 2/2/2/2(4-0), 3/1(1-8), 3/2(7-8), 7/3(0-11), 8/1(2-6), 9/9(1/10-19), 9/2(3(0-4), KITTE 8 RAKBA 17 KANAL 4 MARLA ITS SHARE 153440 ITS MEASURING 0 KANAL 1-1/2 MARLA, SITUATED AT SHANTI HOMES UNIVERSAL INFRA CITY JTPL CITY, SECTOR 115, VILLAGE KHUNIMAJRA, HADBAST NO. 187, TEHSIL KHARAR, DIST. SAS NAGAR MOHALI, TC KHARAR B.O. MOHALI, PUNJAB-140301, IN THE FAVOUR OF RAMESH SINGH & SAVITA BISHT, AND BOUNDED AS: EAST: HOR MALAK - 22', WEST: SARAK - 22', NORTH: PLOT NO. 402 - 57', SOUTH: SARAK - 57'.	Rs. 24,61,287.63/- (Rupees Twenty Four Lakh Sixty One Thousand Two Hundred Eighty Seven and Sixty Three Paise Only)	Rs. 28,24,580/- (Rupees Twenty Eight Lakh Twenty Four Thousand Five Hundred Eighty Only)	INR 2,82,458/- (Rupees Two Lakh Eighty Two Thousand Four Hundred Fifty Eight Only)	02.07.2025	03.07.2025
2.	ANIL KUMAR, SEEMA RANI & PARDEEP KUMAR.	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF FLAT SITUATED AT FLAT NO. 1024 FIRST FLOOR ADMEASURING 1 MARLABEING 1/64 SHARE OF KHEWAT - KHATONI NO. 2888/3113, KHASRA NO. 17/33(3-4) HAVING HADBAST NO. 184, KHARAR, 1024, KNOWN AS WILLOW HOMES, DASHMESH NAGAR, ADMEASURING 1970 SQ. FT. KHARAR, PUNJAB, S.A. NAGAR, PUNJAB - 140301, IN THE NAME OF SEEMA RANI W/O ANIL KUMAR, VIDE SALE DEED NO. 7925 DATED 16-AUG-2022, AND BOUNDED AS: EAST: HOR MALAK, WEST: ENTRY, NORTH: UNIT NO. 1021, SOUTH: HOR MALAK.	Rs. 22,63,878/- (Rupees Twenty Two Lakh Sixty Three Thousand Eight Hundred Seventy Eight Only)	Rs. 21,54,413/- (Rupees Twenty One Lakh Fifty Four Thousand Four Hundred Thirteen Only)	Rs. 2,15,441/- (Rupees Two Lakh Fifteen Thousand Four Hundred Forty One Only)	02.07.2025	03.07.2025
3.	VIKRAM BABBAR, BARKHA & AKSHIT BABBAR	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF APARTMENT/FLAT NO. 653, FIRST FLOOR, "ECO GREEN COLONY PHASE II", MEASURING 0 BISWA 12 BISWASI, SUPER AREA ALONG WITH COMMON AREA = 735.11 SQUARE FEET, COVERED AREA = 545 SQ. FT., AS PER SHARE OF LAND AREA 31.11 SQ. YARDS, BEARING KHATA NO. 68/69-70 COMPRISED UNDER KHASRA NO. 763/ 476 (3-0), 477(4-0), 479 (3-14), 480(2-16), 480/1 (3-10), 483 (4-0), 484 (4-0), 485 (4-0), 486 (4-0), 487 (6- 18), 488 (5-8), 489 (4-0), 780/481 (3-10), 482 (4-0), KITE-14, LAND 56 BIGHA-16 BIGHA, OF 11/22720 SHARE = 0 BIGHA-0 BISWA-1 BISWASI TOTAL LAND MEASURING 0 BIGHA-0 BISWA-12 BISWASI, VILLAGE GULABGARH, TEHSIL DERA BASSI, DISTT. SAS NAGAR, MOHALI, HADBAST NO. 9, PUNJAB-140507, OWNED BY MR. VIKRAM BABBAR, AND BOUNDED AS: EAST: UNIT NO. 672 WEST: 30'-0" WIDE ROAD, NORTH: UNIT NO. 652, SOUTH: UNIT NO. 654.	Rs. 16,34,777/- (Rupees Sixteen Lakh Thirty Four Thousand Seven Hundred Seventy Seven Only)	INR 21,13,237/- (Rupees Twenty One Lakh Thirteen Thousand Two Hundred Thirty Seven Only)	INR 2,11,324/- (Rupees Two Lakh Eleven Thousand Three Hundred Twenty Four Only)	02.07.2025	03.07.2025
4.	VIJAY SINGH, GILL INDUSTRIES & DEEPAK SINGH	ALL THAT PIECE AND PARCEL OF OPEN PLOT NO. 48, ADMEASURING 100 SQ YDS, COMPRISED WITH KHASRA NO. 1051, 1056, 1048, 1049, 1050, JAMBANDIES OF THE YEARS 2010-2011, SITUATED IN VILLAGE "GILL NO. 2", LOCALITY KNOWN AS "SAWAN ENCLAVE", NEAR ISHER NAGAR, TEHSIL AND DISTRICT LUDHIANA, PUNJAB, IN THE NAME OF DEEPAK SINGH AND VIJAY SINGH VIDE REGISTERED SALE DEED NUMBER 2972 DATED 22.10.2018, AND BOUNDED AS: EAST: NEIGHBOR, 20", WEST: STREET, 25'00", NORTH: NEIGHBOR, 45'0", SOUTH: NEIGHBOR, 45'0".	Rs. 23,49,227.45/- (Rupees Twenty Three Lakh Forty Nine Thousand Two Hundred Twenty Seven and Forty Five Paise Only)	Rs. 34,59,300/- (Rupees Thirty Four Lakh Fifty Nine Thousand Three Hundred Only)	Rs. 3,45,930/- (Rupees Three Lakh Forty Five Thousand Nine Hundred Thirty Only)	02.07.2025	03.07.2025

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Aditya Birla Housing Finance Limited/Secured Creditor's website i.e. <https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act-or-i.e.https://sarfaesi.auctiontiger.net>

PLACE : LUDHIANA and ZIRAKPUR
DATE : 27.05.2025

Sd/-
AUTHORIZING OFFICER,
ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

SIR SHADI LAL ENTERPRISES LIMITED

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase-II Extension, Noida, Uttar Pradesh - 201 305
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida, Uttar Pradesh - 201 301
Website: www.sirshadilal.com | **CIN:** L51909UP1933PLC146675

Statement of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended March 31, 2025

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	3 Months ended		Year ended	
	31-Mar-2025 (Audited)	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2025 (Audited)	31-Mar-2024 (Audited)
Total Income from operations	9265.75	18564.48	26834.09	46215.43
Net Profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	1600.64	1764.31	(1854.33)	(918.67)
Net Profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	1600.64	1764.31	(1854.33)	(918.67)
Net Profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	1197.12	1764.31	(4460.01)	(918.67)
Total comprehensive income for the period [Comprising Profit/(loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	1186.16	1766.73	(4526.96)	(875.35)
Equity share capital	525.00	525.00	525.00	525.00
Other equity			(21486.52)	(16959.56)
Earnings per share of ₹10/- each (not annualised for the quarters)				
(a) Basic (in ₹)	22.80	33.61	(84.95)	(17.50)
(b) Diluted (in ₹)	22.80	33.61	(84.95)	(17.50)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and year ended March 31, 2025 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter and year ended March 31, 2025 are available on the website of Stock Exchange (www.bseindia.com) and on the website of Company (www.sirshadilal.com).
- Upon acquiring the controlling stake in the Company, the present management had instituted a review of the accounting policies being earlier followed by the Company to ensure that these provide more reliable and relevant information relating to the financial performance and state of affairs of the Company and with a view to align them with those of the peers in the industry. Pursuant thereto, the accounting policy for measurement of land has been changed from revaluation model to cost model in the quarter ended June 30, 2024. The impact of such change on the financial results has been considered retrospectively in accordance with Ind AS 8 'Accounting policies, changes in accounting estimates and errors' and is disclosed as under:

(₹ in lakhs)

Particulars	3 Months ended		Year ended	
	31-Mar-2025 (Audited)	31-Mar-2024 (Audited)	31-Mar-2025 (Audited)	31-Mar-2024 (Audited)
Impact on the items of total comprehensive income:				
Reduction in other comprehensive income	-	37781.55	-	37781.55
Impact on the items of balance sheet:				
Reduction in revaluation surplus (other equity)	-	82340.69	-	82340.69
Reduction in carrying amount of segment assets (Property, plant and equipment)				
- Sugar	-	55599.59	-	55599.59
- Distillery	-	26741.10	-	26741.10
	-	82340.69	-	82340.69

- The Board at its meeting held on December 10, 2024 has, subject to necessary approvals, considered and approved a Composite Scheme of Arrangement amongst Triveni Engineering & Industries Limited ('TEIL'), Sir Shadi Lal Enterprises Limited ('SSELE') and Triveni Power Transmission Limited ('TPTL') and their respective shareholders and their respective creditors under Section 230 to 232 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the rules made thereunder (the "Scheme") for amalgamation of SSELE into TEIL and demerger of Power Transmission Business of TEIL into TPTL. The approval/no-objection of Stock Exchanges to the Scheme on the application filed by the Company is awaited.

Place: Noida (U.P.)
Date: May 26, 2025

For Sir Shadi Lal Enterprises Limited
Tarun Sawhney
Chairman & Managing Director

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>स्टाईलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन नं.: L20211CH1991PLC011732 पंजीकृत कार्यालय: एएससीओ 14 सेक्टर 7सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019 ईमेल: cs@stylam.com, वेबसाइट: https://www.stylam.com</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>						
31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सार						
(रु. लाखों में)						
	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		
क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1.	प्रचालनों से कुल आय	26,644.52	25,630.10	24,121.30	1,03,258.91	91,980.92
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों से पूर्व)	3,772.45	4,246.72	4,220.59	16,489.77	16,546.62
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	3,772.45	4,246.72	4,106.45	16,489.77	16,432.48
4.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	2,958.21	2,981.80	3,757.37	12,187.29	12,844.02
5.	अवधि के लिए कुल समग्र आय [अवधि के लिए लाभ/(हानि) (कर पश्चात) और अन्य समग्र आय (कर पश्चात) सम्मिलित]	2,967.93	2,974.31	3,755.69	12,110.34	12,842.13
6.	इविचटी शेयर पुर्जी	847.40	847.40	847.40	847.40	847.40
7.	प्रति शेयर अर्जन: 1. वार्षिक 2. डायल्यूटेड	17.51 17.51	17.55 17.55	22.17 22.16	71.46 71.46	75.77 75.77

नोट: 1. स्टाईलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसकी अनुषंगियों के उपर्युक्त परिणामों की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन दिनांक 26 मई, 2025 को क्रमशः आयोजित उनकी बैठकों में किया गया।
2. ऊपर सेबी (सूचीबद्ध और अन्य प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में पेश किए 31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत रूप का सार है। 31 मार्च, 2025 को समाप्त लेखापरीक्षित तिमाही और वर्ष के एकल और समेकित वित्तीय परिणामों का विस्तृत पूर्ण रूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट (www.bseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.stylam.com) पर भी उपलब्ध है।
3. कंपनी के लेखापरीक्षित एकल वित्तीय परिणामों की सूचना निम्नवत् है:—

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>स्टाईलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन नं.: L20211CH1991PLC011732 पंजीकृत कार्यालय: एएससीओ 14 सेक्टर 7सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160019 ईमेल: cs@stylam.com, वेबसाइट: https://www.stylam.com</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>						
31 मार्च, 2025 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सार						
(रु. लाखों में)						
	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष		
क्र. सं.	विवरण	31.03.2025	31.12.2024	31.03.2024	31.03.2025	31.03.2024
1.	प्रचालनों से कुल आय	26,643.42	25,628.36	24,119.63	1,03,252.93	91,974.81
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर पूर्व, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	3,771.46	4,244.97	4,105.20	16,483.99	16,426.81
3.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (कर, विशिष्ट और/या असाधारण मदों के बाद)	2,906.94	3,033.31	3,754.77	12,106.07	12,837.94



निदेशक मंडल की ओर से व उन्हीं के लिए स्टाईलैम इंडस्ट्रीज लिमिटेड हस्ता./- जगदीश साय गुप्ता प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 00115113

स्थान: चंडीगढ़
दिनांक: 26.05.2025



कच्चा सूचना
(अपन संपत्ति हेतु)


जब कि,
समान कैपिटल लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) (पहले इंडियाब्लूस् हाइसिम फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अयोध्याशहरी में सिस्कोरिटाइजेशन एंड रिस्कमैनेजमेंट ऑफ फायनान्सियल असेट्स एंड एफोर्समेंट ऑफ सिस्कोरिटी इंस्ट्रुमेंट्स, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ विनियोजित इंस्ट्रुमेंट (एफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार मुनीश कुमार और रेखा देवी को **17.02.2025** की सूचना में वर्षन के अनुसार कर्ज खता नं. HDHLPA0040485499 की राशि रु. **23.91,599.37 (रुपये तेईस लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ नित्यानवे और सैंतीस पैसे मात्र)** और **07.02.2025** के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अधिध्याना सूचना जारी की थी। धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतद्वारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अयोध्याशहरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिस्कोरिटी इंस्ट्रुमेंट (एफोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके **24.05.2025** को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रु. **23.91,599.37 (रुपये तेईस लाख इक्यानवे हजार पाँच सौ नित्यानवे और सैंतीस पैसे मात्र)** के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ समान कैपिटल लिमिटेड (पहले इंडियाब्लूस् हाइसिम फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के आधीन होगा। उपर्युक्तों का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अंतर्गत संपत्ति/ संपत्तियों को मुक्त करने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण
संपत्ति पर के सभी भाग और खंड, कुल मापित क्षेत्र 0 कानल 5 माली (150 स्क्वे. यार्ड्स) और कवर्ड एरिया 750 स्क्वे. फीट, नारपालिका बार्ड नं. 1 पर स्थित, जमीन बेअरींग खेवट नं. 243 पर निर्मित, खाली नं. 274, मुरवा नं. 19, केएच नं. 23/2 (7-0), 24/1 (7-4), 24/2 (0-16), मुरवा नं. 27 केएच 2/1(1-16) 3 (7-3), खेवट/खाली नं. 246/277, मौजा लाडवा, एचबी-76, मौजा लाडवा, कुरुक्षेत्र-136132, हरियाणा और इसकी सीमा निम्नानुसार परिबद्ध है:
पूर्व : गली/सड़क
पश्चिम : अन्य की जमीन
उत्तर : अन्य की जमीन
दक्षिण : गली/सड़क


सही/-
प्राधिकृत अधिकारी
समान कैपिटल लिमिटेड
(पहले इंडियाब्लूस् हाइसिम फाइनेंस लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

दिनांक : 24.05.2025
स्थान : कुरुक्षेत्र

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड कारपोरेट कार्यालय: सोला क्रैस्ट, सुपर बी, सी 54 और सी 55, 4, थिरु वि का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्नी, चेन्नई-600032</p> </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>					
कच्चा सूचना (परिशिष्ट IV) नियम 8(1) के तहत					
जबकि मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के अयोध्याशहरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर कर्जदारों (जिनके नाम और पते नीचे दिये गए हैं) को नीचे वर्णित बकाया राशि इस पर ब्याज सहित उक्त सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर चुकता करने के लिए नीचे विनिर्दिष्ट तारीखों को मांग सूचना जारी की गई। नीचे उल्लिखित कर्जदारों द्वारा राशि अदा न कर पाने पर कर्जदारों और जन सामान्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अयोध्याशहरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्तियों का नीचे वर्णित संबंधित तारीख को कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदारों और सर्व जन को सामान्य रूप में नीचे वर्णित संपत्तियों से कोई भी लेन-देन न करने के लिए आग्रह किया जाता है तथा ऐसा कोई भी लेन-देन नीचे दिये गए राशि और इस पर ब्याज एवं अन्य प्रभारों के लिए मेसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रत्याभूत परिस्थितियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।					
कर्जदार का नाम और पता और ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तारीख	बकाया राशि	अचल संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख	
ऋण खाता सं. LAP3JND00003234 1. श्रीमान/श्रीमती मोहन 2. श्रीमान/श्रीमती राजबाला राज पता: पुत्र राजकपुर, खटकर पट्टी, नजदीक, कैथल रोड, नागपुर, नगपुर, कैथल रोड, नागपुर, जौद, हरियाणा - 126125 अन्य पता: खेवट नं. 433 खाता नंबर 550-551 खेवट नंबर 433, 643, खाता नंबर 550-551, 800/संपत्ति स्थित गौन नागपुर, तहसील अलेवा, जिला जौद, हरियाणा- 126125 नागपुर अलेवा जौद 126125 हरियाणा याव खेड़ा जौद 126125 स्थान: जौद दिनांक: 22.05.2025	17-02-2025	रु. 213627/- (रुपये इकतीस लाख छत्तीस हजार दो सौ सात मात्र) दिनांक 14.03.2025 को	मांग 847 वर्ग गज = 01 कनाल 07 मल 08 सरसाई अर्थात् 05 मारला 04 सरसाई 11/2382 हिस्सा भूमि माप 89 कनाल 16 मारला में जिसकी खेवट संख्या 433 खाली संख्या 500 से 551, किटे 9 और 45/1796 रौबर भूमि माप 44 कनाल 18 मारला में जिसकी खेवट संख्या 643 खाली संख्या 800, किटे 6 स्थित गौन नागपुर, तहसील अलेवा और जिला जौद, हरियाणा। म्यूटेशन नं. 8841 के साथ पठित उप-पंजीकृत अलेवा के कार्यालय में पंजीकृत सगे संबंधी विलेख संख्या 2417 दिनांकित 13-01-2023 द्वारा और जमाबंदी गौन अलेवा रॉ 2018-2019। पूर्व: 78.3 फुट गली, पश्चिम: 78.3 फुट रॉम परसाद की जमीन, उत्तर: 100 फुट सोनबीर का मकान, दक्षिण: 100 फुट गोपीराम की जमीन	22.05.2025 (रुपये)	
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड					

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम सिटी यूनिवर्स फाइनेंस लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : 14ए, श्री टॉवर, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुडवडी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालय : सॉल्टवेयर कॉर्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नंबर 10, 1062, 6ठी मंजिल, गुरु हरगोबिंदजी मार्ग, चकला, अंधेरी ईस्ट, मुंबई - 400 093 वेबसाइट : www.shriramfinance.in</p> </div> </div>		
मांग सूचना		
<p>नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार "श्रीराम सिटी यूनिवर्स फाइनेंस लिमिटेड" को "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड" के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड" का नाम बदलकर "श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड" कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।</p> <p>जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम सिटी यूनिवर्स फाइनेंस लिमिटेड) से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजूद, कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विधिपूर्वक चुक की है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-परफॉर्मिंग आरिस्ट के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं। उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयीं सूचनाएँ अनसुर्ब वापस कर दी गयीं और उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सूचित किया जा रहा है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।</p>		
कर्जदार (रौ)/सह-कर्जदार (रौ) का नाम तथा पता	बकाया राशि	प्रतिभूत अस्तियों का संपत्ति पता
1) मेसर्स ए जे ट्रेडर्स कर्जदार शुभ्री अंजलि सूरी द्वारा प्रतिनिधित्व, प्रथम तल, 163-बी, मेन रोड, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली - 110027 इसके अलावा: जे-173, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, पश्चिमी दिल्ली - 110027 इसके अलावा: प्लॉट नंबर डी-3254, सुशांत सिटी, कस्बा करनाल गांव - कम्बोपुरा गांव दादपुर, रंगराम, कर्नाल हरियाणा-132001	रु. 36,62,230/- (रुपये छत्तीस लाख बासठ हजार दो सौ तीस मात्र) 07 मई, 2025 तक ऋण खाता संख्या RSS-DLLP2211050005 के संबंध में	प्लॉट नंबर डी-3254, क्षेत्रफल 199 वर्ग गज, आवासीय कॉलोनी सुशांत सिटी, कस्बा करनाल के पास, गांव - कंबोपुरा और गांव दादपुर, रंगराम, कर्नाल हरियाणा - निम्नानुसार सीमा: पूर्व: 59.5, प्लॉट नंबर 3255 पश्चिम: 59.5, प्लॉट नंबर 3253 उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य का प्लॉट
2) श्रीमती अंजलि सूरी (सह-कर्जदार/गारंटर) जे-173, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, पश्चिमी दिल्ली - 110027		
3) श्री जसमिंदर सिंह (सह-कर्जदार/गारंटर) जे-173, द्वितीय तल, राजौरी गार्डन, पश्चिमी दिल्ली 110027		
एनपीए दिनांक- 05.05.2025 मांग सूचना की तिथि : 12.05.2025	रु. 40,00,000/- (रुपये चालीस लाख मात्र)	

उपयुक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हों) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अंतर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को पट्टे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।
स्थान : दिल्ली, करनाल
दिनांक : 27.05.2025
ह./ अधिकृत प्राधिकारी
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व की श्रीराम सिटी यूनिवर्स फाइनेंस लिमिटेड) पंजीकृत कार्यालय : 14ए, श्री टॉवर, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुडवडी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालय : सॉल्टवेयर कॉर्पोरेट पार्क, बिल्डिंग नंबर 10, 1062, 6ठी मंजिल, गुरु हरगोबिंदजी मार्ग, चकला, अंधेरी ईस्ट, मुंबई - 400 093 वेबसाइट : www.shriramfinance.in</p> </div> </div>		
मांग सूचना		
<p>नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार "श्रीराम सिटी यूनिवर्स फाइनेंस लिमिटेड" को "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड" के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद "श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड" का नाम बदलकर "श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड" कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।</p> <p>जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का श्रीराम सिटी यूनिवर्स फाइनेंस लिमिटेड) से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजूद, कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विधिपूर्वक चुक की है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-परफॉर्मिंग आरिस्ट के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबंधित तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं। उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयीं सूचनाएँ अनसुर्ब वापस कर दी गयीं और उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सूचित किया जा रहा है। प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।</p>		
कर्जदार (रौ)/सह-कर्जदार (रौ) का नाम तथा पता	बकाया राशि	प्रतिभूत अस्तियों का संपत्ति पता
1) मेसर्स पास्ता ला वास्टा कर्जदार श्री करण डीगरा द्वारा प्रतिनिधित्व, निवासी 3-जे/32, एनआईटी-3, ईएसआई चौक, फरीदाबाद, हरियाणा -121001	रु. 4384797/- (रुपये तैतालीस लाख चौगसी हजार सात सौ सतानवे मात्र) 07 मई, 2025 तक ऋण खाता संख्या RSSDLLP2212050019 के संबंध में तथा रु. 2,85, 429/- (रुपये दो लाख पचासी हजार चार सौ उन्तीस मात्र) 07.05.2025 तक ऋण खाता संख्या RSSDLLP2302040003 के संबंध में	प्लॉट नंबर 3ख/32, 116.25 वर्ग गज में से 73.278 वर्ग मीटर क्षेत्रफल, फेडरल कॉलोनी एन.एच.3, एनआईटी फरीदाबाद में स्थित है। निम्नानुसार सीमा: पूर्व: रंजीत का मकान, पश्चिम: सड़क, उत्तर: संपत्ति का अन्य भाग, दक्षिण: सड़क
2) श्रीमती सुनीता (सह-कर्जदार/गारंटर) मकान नंबर 3सी -86, ब्लॉक-सी, ईएसआई चौक, फरीदाबाद, हरियाणा-121001		
3) श्री करण डीगरा (सह-कर्जदार/गारंटर) मकान नंबर 3सी -86, ब्लॉक-सी, ईएसआई चौक, फरीदाबाद, हरियाणा-121001		
4) श्री नरेश डीगरा (सह-कर्जदार/गारंटर) मकान नंबर 3सी-86, ब्लॉक-सी, ईएसआई चौक, फरीदाबाद, हरियाणा-121001		
एनपीए तिथि- 05.05.2025 मांग सूचना की तिथि: 12.05.2025	रु. 45,00,00/- (रुपये पैंतालीस लाख मात्र) तथा रु. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र)	
1) मेसर्स अनहद स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड कर्जदार श्री रविंदर सिंह राजावत द्वारा प्रतिनिधित्व प्लॉट नंबर 2/16, वेसमेंट कालकाजी एक्सप्लेन, नई दिल्ली -110019	रु. 32,99,199/- (रुपये बत्तीस लाख नित्यानवे हजार एक सौ नित्यानवे मात्र) 07 मई, 2025 तक ऋण खाता संख्या RSSDLLP2203010004 के संबंध में	चितरंजन पार्क नई दिल्ली -110019 में स्थित संपत्ति नंबर पी-70 का पूरा वेसमेंट बिना छत के अधिकार के, 125 वर्ग गज क्षेत्रफल। निम्नानुसार सीमाबद्ध: पूर्व: संपत्ति नंबर पी-69, पश्चिम: संपत्ति नंबर पी-71, उत्तर: अन्य संपत्ति, दक्षिण: सड़क
2) श्री रविंदर सिंह राजावत (सह-कर्जदार/गारंटर) मकान नंबर सी-19, दूसरी मंजिल, दावी और दयाल बाग, सूरज कुंड, फरीदाबाद -121009		
3) श्रीमती विजय लक्ष्मी (सह-कर्जदार/गारंटर) मकान नंबर सी-19, दूसरी मंजिल, दावी और दयाल बाग, सूरज कुंड, फरीदाबाद -121009		
4) श्रीमती विनोद नरुका (सह-कर्जदार/गारंटर) मकान नंबर सी-19, दूसरी मंजिल, दावी और दयाल बाग, सूरज कुंड, फरीदाबाद -121009		
5) श्री भगवत सिंह राठीर(सह-कर्जदार/गारंटर) मकान नंबर सी-19, दूसरी मंजिल, दावी और दयाल बाग, सूरज कुंड, फरीदाबाद -121009		
एनपीए तिथि- 05.05.2025 मांग सूचना की तिथि: 11.05.2025		

उपयुक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हों) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अंतर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।
कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को पट्टे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।
स्थान : फरीदाबाद
दिनांक : 27.05.2025
ह./ अधिकृत प्राधिकारी
श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

In fast or fragile markets, insight brings perspective.



Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — every day with **Stocks in the News** in Business Standard.

To book your copy, SMS reaches to 57575 or email order@bsmail.com





Business Standard Insight Out